



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1315]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 1, 2006/कार्तिक 10, 1928

No. 1315]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2006/KARTIKA 10, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2006

सं. 113/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1882(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, 'डी' ब्लॉक आई.पी. भवन, सातवां तल, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2006 को डी.आर.आई. फा. सं. 50डी/41/2004-सी आई के तहत जारी मैसर्स गुडियाज फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड, ई-9, होजखास, नई दिल्ली से संबंधित कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क आयुक्त, तुतिकोरिन को सीमा शुल्क आयुक्त, न्हावा शेवा पोर्ट, जिला राजगढ़, मुम्बई के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करता है और उन्हें पुष्ट अथवा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यभार के निष्पादन हेतु प्राधिकृत करता है।

[फा. सं. 437/36/2006-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2006

No. 113/2006-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 1882(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 and Sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs Tuticorin to act as the Commissioner of Customs, Nhava Sheva Port, District Raigad, Mumbai and authorises him to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed, under the said Act for the purposes of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s. Gudiyas Fashions Private Limited, E-9, Hauz Khas, New Delhi issued, vide, DRI F. No. 50D/41/2004-CI, dated the 17th March, 2006 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, 'D' Block, I.P. Bhawan, 7th Floor, I.P. Estate, New Delhi.

[F. No. 437/36/2006-Cus. IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.